



Government of India

Ministry of Electronics & Information Technology
Standardisation, Testing & Quality Certification Dte.
Electronics Niketan, 6 CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

STQC APPROVAL BODY / एसटीक्यूसी स्वीकृति निकाय

Certificate of Approval for Empanelment of SETL

एस.ई.टी.एल. की सूचीबद्धता के लिये अनुमोदन प्रमाणपत्र

STQC Approval Body is pleased to inform that below mentioned laboratory has been assessed satisfactorily to the Approval Criteria for SETL (STQC Empanelled Testing Laboratory) for the scope mentioned in Annexure-I.

एसटीक्यूसी अनुमोदन निकाय को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनुबंध- I में उल्लिखित दायरे के लिए एसईटीएल (एसटीक्यूसी पैनेलबद्ध परीक्षण प्रयोगशाला) के लिए अनुमोदन मानदंड के लिए नीचे उल्लिखित प्रयोगशाला का संतोषजनक ढंग से मूल्यांकन किया गया है।

Details of Empanelled SETL are as follows

सूचीबद्ध एस.ई.टी.एल. का विवरण इस प्रकार है:

Approval Number	STQC-SAB-SETL-3
अनुमोदन संख्या	
Name of Approved SETL	M/s Precise Testing Solution Pvt. Ltd
अनुमोदित एस.ई.टी.एल. का नाम	
SETL Address	B-5, Second Floor Sector 64 Noida (U.P.)- 201301
एस.ई.टी.एल. का पता:	

Scope covers the following / कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:-

Refer Annexure-I

All the tests listed above can be performed at the Laboratory / At Customer's Site.

ऊपर सूचीबद्ध सभी परीक्षण प्रयोगशाला/ग्राहक के स्थान पर किए जा सकते हैं।

Certificate validity / प्रमाणपत्र वैधता: 11/12/2021 to / से 10/12/2024

Issue Date / प्रकाशित दिनांक: 15/03/2022

"Clarification (if any) related to the scope of this SETL may be obtained from STQC Approval Body इस एसईटीएल के दायरे से संबंधित स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) एसटीक्यूसी अनुमोदन निकाय से प्राप्त किया जा सकता है"


The Validity of this certificate is subjected to continued compliance verification in surveillance audits इस प्रमाणपत्र की वैधता निगरानी ऑडिट में निरंतर अनुपालन सत्यापन के अधीन है।

Issued by/ प्रकाशितकर्ता:

Head/ प्रमुख, STQC Approval Body/ एसटीक्यूसी अनुमोदन निकाय

Annexure -I
Approval No. STQC-SAB-SETL-3

Sl	Field of Testing	Test Method / Test Procedure /Ref Standard Spec	Remarks
1	Functional Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP03-Functional Testing; ISO/IEC/IEEE 29119-(1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 :2011	--
2	Performance Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP04-Performance Testing; ISO/IEC/IEEE 29119-(1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 :2011	--
3	Application Security Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP05-Application Security; Testing; ISO/IEC/IEEE 29119- (1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 : 2011, ISO/IEC 27033, OWASP TOP10 for Web : 2017	--
	A. Web Application Security Testing		
	B. Mobile Application Security Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP18-Mobile App Security Testing; ISO/IEC/IEEE 29119-(1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 :2011, ISO/IEC 27033, ISO/IEC 27033:2018, OWASPTOP10 for Mobile:2016	--
	C. API Security Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP17-API Security Testing; ISO/IEC/IEEE 29119- (1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 :2011, ISO/IEC 27033, ISO/IEC 27033:2018, OWASP Top 10 for API 2019	--
4	Vulnerability Analysis & Penetration Testing	Internal Test Methodology-PTS-TP08-VA PT Testing; ISO/IEC/IEEE 29119- (1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, ISO/IEC 25010 :2011, ISO/IEC 27033, CIS Benchmarks	--
5	Accessibility testing	Internal Test Methodology-PTS-TP11-Accessibility Testing; ISO/IEC/IEEE 29119-(1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, GIGW-2.0 & WCAG 2.0/2.1 (A & AA)	Limited to Websites
6	Website Testing as per GIGW	Internal Test Methodology-PTS-TP12-Website Testing; ISO/IEC/IEEE 29119- (1-3) : 2013, ISO/IEC/IEEE 29119-4: 2015, GIGW 2.0	Limited to Websites
7	Hardware Security	Internal Test Methodology-PTS-TP16-Hardware Security Testing & ISO/IEC 27119-3 and OWASP ASVS Version 4.0	Limited to CCTV Cameras Only as per OWASP ASVS Version 4.0


Issued by/ प्रकाशितकर्ता:

Head/ प्रमुख, STQC Approval Body/ एसटीक्यूसी अनुमोदन निकाय